

MARKS DISTRIBUTION

CLASS - 5TH

SUB :- EVS

MARKS:- 85

1. बहुविकल्पीय प्रश्न (MULTIPLE CHOICE QUESTIONS) $(10 \times 1 = 10)$

क) ऐसा जानवर जिसके कान निखार्दू देते हैं:

- 1. मोट्टक
- 2. साँप
- 3. लिंगपत्रकला
- 4. बकरी

Animal whose ears can be seen.

- 1. frog
- 2. snake
- 3. Lizard
- 4. Goat

ख) भीम के कौन से हड्डीमें रक्त जायाये पता चलता है?

- 1. आंगे
- 2. पीछे
- 3. बाएँ
- 4. दाएँ

On which part of the tongue could you get the most taste?

- 1. front
- 2. back
- 3. left
- 4. right.

ग) कौन सी दाल उबाला बनाने से पहले नहीं अचोक्जाती?

- 1. राजमाह
- 2. काले धनेरे
- 3. सफेद धनेरे
- 4. लाल मसूद

Which pulse is not soaked before cooking?

- 1. Rajmah
- 2. Black gram
- 3. White gram
- 4. Red masoor

घ) ऐसी वीज जो कि पानी में नहीं घुलती:

- 1. नमक
- 2. कंकड़
- 3. चीनी
- 4. एक नम्मवाला ढूध

A thing which is not dissolved in water:

- 1. Salt
- 2. Pebble
- 3. Sugar
- 4. one spoon milk

क) बच्छेन्द्री पाल ने कब मार्डी एवेस्ट्र पर कदम रखा?

- 1. 02 मई 1984
- 2. 09 मई 1984
- 3. 23 मई 1984
- 4. 29 मई 1984

When Bachhendri Pal stepped onto the Mount Everest?

- 1. 02 May 1984
- 2. 09 May 1984
- 3. 23 May 1984
- 4. 29 may 1984

घ) चाँद से जुड़ा कौन सा चौंदार मनोरंजन जाता है?

- 1. बैसाखी
- 2. पूर्णिमा
- 3. होली
- 4. दशहरा

A festival which is related to the moon:

- 1. Baisakhi
- 2. Purnamasi
- 3. Holi
- 4. Dusshera

इ) शिंगार में कौन सी झाल पाई जाती है?

- 1. रिवालसर झाल
- 2. रिणुका झाल
- 3. सुखना झाल
- 4. डल झाल

Which lake is found in Srinagar?

- 1. Renalsar lake
- 2. Renuka lake
- 3. Sukhna lake
- 4. Dal lake

Q) इनमें से कोन सा वाद्यकान्त्र नहीं है :
1. गुड़बारा 2. बांसुरी 3. ढोलक 4. गिटार

Which is not a musical instrument among these :-

1. balloon
2. flute
3. dholak
4. guitar

Q) सचिन तेंदुलकर कोन से ज्ञेय में सम्बन्धित है ?
1. बॉलीबाल 2. चैश 3. क्रिकेट 4. फुटबाल

Sachin Tendulkar related to which game:-

1. Volleyball
2. Chess
3. Cricket
4. football

Q) कुडुक भाषा में 'तोरंग' का मतलब है :-
1. शहर 2. गांव 3. सड़क 4. जंगल

Meaning of 'Torang' in Kuduk language :-

1. city
2. Village
3. road
4. forest

2. सही / गलत (True / false) (10×1=10)

क) रुलॉफ थिल के करीब सत्रह घण्टे देखे से उल्लेट सिर लटककर मरती होती हैं।

Sloth spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree.

ख) कालबोलिया नाच में ऊपर जैसी मुद्राएँ होती हैं।

Kalbelia dance have movements similar of the snake.

ग) ब्रेड एक महीने तक बरसाना नहीं होती।

Bread will not spoil upto one month.

घ) राजस्थान में बहुत कम बारिंग होती है,

There is very little rainfall in Rajasthan.

ङ) गर्मी के मौसम में मलोरिया ज्बाया कैलमा है।

Malaria spread vastly in the season of summer.

च) कुचीपुड़ी एक नृत्य है।

Kuchipudi is a form of dance.

छ) केरोसीन तेल का प्रयोग गैस सिलेंडर में किया जाता है,

Kerosene oil is used in gas cylinder.

ज) 26 जनवरी 2011 को गुजरात के भुज झेत्र में एक्स्ट्रम झांगा हुआ आया।

An earthquake occurred in the Bhuj region of Gujarat on 26 January 2011.

Q) जोश्या खेडी गाँव में दैया हुआ था।

Joshiya was born in Khedi village.

Q) भास्करभाई का फार्म गुजरात में है।
Bhaskarbhai's farm is in Gujarat.

3. मिलान करें (Match the following)

(5×1=5)

1. जीबस कॉर्सिंग - अंतरिक्ष
2. सुनीता विलिंग - इनांपनोने की गैस
3. एल.पी.जी. - सड़क सुरक्षा नियम
4. साप - साबरमती
5. महात्मा गांधी - सीरंग

Zebra Crossing - space

Sunita Williams - cooking gas

L.P.G.

- Road Safety rule

Snake

- Sabarmati

Mahatma Gandhi - Siram

4. रिंत स्थान भरें : (fill in the blanks) (10×1=10)

1. मछलियाँ अवैरों की चेतावनी एक दूसरे को _____ से देती हैं।
fishes give alarm call by _____.

2. बाघ मौके के अनुसार अपनी _____ बढ़ाता रहता है।
Tigers make different _____ for different purposes.

3. _____ पुर्णगाल देख के चापारी दाढ़ी अमेरिका से भारत आए
_____ were brought to India by traders coming from South America.

4. लीदे की काल पानी में _____ जारंगा तथा लोटियाँ की
खाली बोतल पानी में _____.
iron nail _____ in water and empty plastic bottle _____.

5. मलेरिया की दवाई _____ पेंड की खाल से बनाई जाती है।
Malaria medicine made from the bark of _____ tree.

6. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मौनटेनाइंग _____ में है।
Nehru Institute of Mountaineering is in _____.

7) हाउसबोट _____ फीट तक लंबे होते हैं और वीच में दुनिया की ओर आठ-नौ किलोमीटर तक होती है।

Houseboat's can be as long as _____ feet and around 8-9 feet wide.

8) भारतीय के बाद लालासाहब अम्बेडकर की अगुवाई में ही स्वामीरामदेव का _____ तैयार हुआ।

After India's freedom the _____ was prepared under the leadership of Babasaheb Ambedkar.

9) कोड़ी से बचाने के लिए कमल पर _____ का दिक्षिण करना पड़ता है।

_____ has to be sprayed on the crops to protect from insects.

10) बाघ अंधेरे में दूर से _____ गुना बेहतर देख सकता है।

A tiger can see _____ times better at night than most of us.

5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें: (Answers the following questions) $(5 \times 2 = 10)$

1. क्या तुमने कभी _____ ग्लूकोज़ देखा है? उसका रसायन कैसा होता है?

Have you ever tasted glucose? How does it taste?

2. तुमहरे घर में कौन-कौन सी कीज़ और कौन सी अंकुरित करके खाइजाती हैं? What things do you eat after sprouting?

3. मच्छरों के काटने से कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं? What other diseases can be caused by mosquito bites?

4. तुमने आस-पास किस-किस तरह के बरतों का इस्तेमाल होता देखा है?

What kinds of pots have you seen around you?

5. तुम अपने बड़ों से क्या-क्या सीखते हो?

What do you learn from your elders?

6. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तृत रूप में लिखो। $(5 \times 3 = 15)$
(Give the answers of these questions in brief)

1. किन ही तीन चीजों के नाम लिखो, जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन ही तीन चीजों के नाम जो लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती।

Write the names of three things whose smell you like and three things whose smell you do not like.

2. पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन-किन वीजों की ज़रूरत पड़ती है? What kinds of tools are needed for climbing mountains?
3. तुम्हारे राज्य से लगे कौन-कौन से राज्य हैं? Which are the states next to the state you live in?
4. मनाली भैयानी इलाका है या पहाड़ी? बद्द शहर कौन से राज्य में है? Is Manali a plain or a hilly area? In which state is it?
5. तुम्हारा अपना सपना क्या है? सपना पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे? What is your dream? What will you do to make your dream come true?
7. मृत सागर से आप क्या समझते हैं? ट्यारेंटो के? ($5 \times 1 = 5$) What do you understand by dead sea? Describe it.
8. तुम अपने गांव व इलाके में क्या-क्या तरफकी फ़ेशन? ($5 \times 1 = 5$) What kind of progress would you like to see in your area?
9. सड़क पार करते समय क्या करें या क्या न करें? ($5 \times 1 = 5$) What will we do or don't do while crossing the road?
10. बताओ, बताओ कौन हूँ मैः - (Who am I) ($2 \times 1 = 2$)

काला-काला गाढ़ा तरल,
जैवन जीना करि सरल।
सोचो-सोचो कौन हूँ मैः?
जलकी बोलो कौन हूँ मैः?
धार रखनी मुझे बचाओ
सोमित है मेय अंडार।
लालो साल मे बन पात हूँ,
नहीं अब मेरी भरभार।
सोचो-सोचो कौन हूँ मैः?
जलकी बोलो कौन हूँ मैः?

I'm black, I'm thick

I flow

Who am I ?

Do you know?

I will last longer,

If you use me with care,

I got made over centuries,

I won't always be there.

Who am I ?

Do you know?


11. ट्रॉफिक सिग्नल के रंग भरोः (3x1=3)

Colour the traffic signals:


1. रुको




2. देखो



3. चलो



STOP



LOOK



GO



12. पानी में तैरती जांब का चित्र बनाओ और रंग भरो (3x1=5)

Draw the picture of boat Sailing on a water.

DISTRIBUTION OF MARKS

EVS (5TH CLASS)

TOTAL MARKS - 85

Type of questions	QTY.	MARKS
-MCQ	10	($10 \times 1 = 10$)
True/false	10	($10 \times 1 = 10$)
Match-up	5	($5 \times 1 = 5$)
fill ups	10	($10 \times 1 = 10$)
Short answers	5	($5 \times 2 = 10$)
brief answers	5	($5 \times 3 = 15$)
long answers	3	($3 \times 5 = 15$)
Riddle	1	($1 \times 2 = 2$)
Activity based question	1	($1 \times 3 = 3$)
Draw & Colour	1	($1 \times 5 = 5$)

हि.प्र.सि.
रामर्थ

HP CCE TERM 2 (2017-2018)
LEARNING OUTCOME FRAMEWORK SHEET

NAME: VINAY CHANDEL & SUMAN LATN
PHONE NO. 9882101881 & 9418970130

CLASS: 7th SUBJECT: EVS

Q. No.	Max. Marks	Type 1 = Basic 2 = Mediocre 3 = Advanced	Learning Outcome Select code from LO Handbook	Success criteria Marks greater than or equal to
1	10	1	5201, 5206, 5207	
2	10	1	5203, 5205, 5213	
3	05	2	5213, 5210	
4	10	2	5213, 5201	
5	10	1	5208, 5207	
6	15	2	5201, 5205	
7	05	3	5205, 5209	
8	05	3	5204, 5202, 5212	
9	05	3	5210	
10	02	1	5213	
11	03	3	5210, 5206, 5211	
12	05	2	5209, 5206 5211	

NOTE: ALTERNATIVE QUESTIONS FOR EACH ITEM SHOULD HAVE SAME MAX MARKS, TYPE, LEARNING OUTCOME AND SUCCESS CRITERIA.

Class 5	EVS	5209	Records observations/experiences/information in an organised manner (e.g. in tables/ sketches/ bar graphs/ pie charts) and predicts patterns in activities/phenomena (e.g. floating, sinking, mixing, evaporation , germination , spoilage) to establish relation between cause and effect.
Class 5	EVS	5210	Identifies signs, directions, location of different objects/landmarks of a locality /place visited in maps and predicts directions w.r.t. positions at different places for a location.
Class 5	EVS	5211	Creates posters, designs, models , set ups, local dishes, sketches, maps (of neighbourhood/ different places visited) using variety of local/waste material and writes poems/ slogans/travelogue etc.
Class 5	EVS	5212	Voices opinion on issues observed/experienced and relates practices /happenings to larger issues of society. (E.g. discrimination for access/ownership of resources, migration/ displacement /exclusion, child rights).
Class 5	EVS	5213	Suggests ways for hygiene, health, managing waste, disaster/emergency situations and protecting/saving resources (land, fuels, forests, etc.) and shows sensitivity for the disadvantaged/deprived.